



REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Corporate Office: Plot No. I-4, Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram - 122001 (Haryana)
Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.nic.in
CIN : L40101DL1969GOI005095 | GST No.: 06AAACR4512R3Z3

SEC-1/187(2)/2024/1637

Dated: March 27, 2024

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फीरोज जीजीभोय टावर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड—RECLTD	स्क्रिप कोड—532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001.
Scrip Code—RECLTD	Scrip Code—532955

Sub: Outcome of Board Meeting held on March 27, 2024.

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform that the Board of Directors of REC Limited in its meeting held on March 27, 2024, *inter-alia* considered and approved the following:

A. Market Borrowing Programme of the Company for the financial year 2024-25 as under:

S. No.	Description	₹ in crore
1.	<ul style="list-style-type: none">Domestic Bonds/ Debentures including but not limited to Infrastructure, Zero Coupon, Perpetual, Subordinate, Inflation-Indexed, Tax-Free, Principal Protected, Market Linked, Green Bonds, Environmental, Social, and Governance (ESG) Bonds, Partly Paid, Separately Transferable Redeemable Principal Parts (STRPP), Staggered Maturity, Cumulative Interest, Step Up Coupon, Bonds forming part of Bond ETF's, or any other Bonds/ Debentures, with/ without interest rate swaps/ options with/ without the same being embedded in the Bonds/ Debentures structure, as may be permitted by the Regulatory Authorities from time to time whether Unsecured/ Secured, Non-convertible, Redeemable, Taxable/ Tax-free whether on private or public placement basis;Capital Gains Tax Exemption Bonds u/s 54EC of Income Tax Act, 1961;Rupee Term Loans from Banks/FIs/NBFCs/ Corporates/Other Institutions;	1,45,000

Regional Offices: Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Panchkula, Patna, Raipur, Ranchi, Shimla, Thiruvananthapuram & Vijaywada

State Offices : Vadodara, Varanasi

Training Centre : REC Institute of Power Management & Training (RECIPMT), Hyderabad

	<ul style="list-style-type: none"> Foreign Currency Term Loans and External Commercial Borrowings (ECBs) including but not limited to / Foreign Currency Bonds/ Rupee Offshore Bonds (Masala or any other bonds)/ Green Bonds, Environmental, Social, and Governance (ESG) bonds etc.; Export Credit Assistance (ECAs); Official Development Assistance Loans (Long/ Medium/ Short Term); Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs); Foreign Currency Non-resident (Bank) [FCNR (B)] Loans; Export ODA loans from Banks/FIs/NBFCs/Other Institutions/ Multilateral Funding Agencies etc. (excluding rollovers). 	
2.	<p>Short Term Loan (STL) from Banks/FIs/NBFCs etc. (excluding temporary loans i.e STL of tenure less than 6 months, WCDL, CC Limit, OD Facility or any other arrangement of similar nature).</p> <p><i>Short Term Loan from Banks/FIs/NBFCs etc. raised and repaid during the financial year to be excluded from this limit.</i></p>	5,000
3.	<p>Commercial Papers</p> <p><i>Commercial Paper raised and repaid during the financial year to be excluded from this limit.</i></p>	10,000
	TOTAL	1,60,000

Funds under the proposed borrowing programme for the financial year 2024-25 shall be raised for different maturities, through different instruments, depending upon the actual requirement of funds, asset-liability position and prevailing market conditions, with the approval of Competent Authority as per the powers delegated in this regard by the Board of Directors.

B. Amendment in 'Policy on Criteria for determining Materiality of Events or Information for disclosure to Stock Exchanges': The Board has approved the amendment in 'Policy on Criteria for determining Materiality of Events or Information for disclosure to Stock Exchanges', in accordance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The copy of the policy is available at "<https://recindia.nic.in/policies>".

The Board meeting commenced at 9.30 a.m. and concluded at 3.35 p.m.

यह आपकी जानकारी के लिए है। This is for your kind information.

धन्यवाद,

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव